



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 278]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 1978/भाद्र 31, 1900

No. 278]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 1978/BHADRA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 467 (अ) :—केन्द्रीय, सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 344/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977 में निम्न-लिखित संशोधन और करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक संतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 8 के अधीन आने वाले ट्रांसफार्मर आयल के सम्बंध में उक्त सारणी की क्रम सं० 1 (ग) के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क की दर, केवल ऐसे ट्रांसफार्मर आयल को ही लागू होगी, जो ऐसे ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक या ट्रांसफार्मर आयल फीड स्टॉक से विनिर्मित किया गया है, जिस पर यथास्थिति समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित अतिरिक्त-शुल्क संवत् किया जा चुका है।”

[सं० 168/78/का० सं० बी० 6/8/78-टी० आर० यू०]

645 GI/78

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd September, 1978

CENTRAL EXCISES

G.S.R. 467(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 344/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977, namely :—

After the Table annexed to the said notification, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that in relation to Transformer oil falling under Item No. 8 of the said First Schedule, the rate of duty specified against S. No. 1(c) of the said Table shall apply to only such Transformer oil which is manufactured from Transformer oil base stock or Transformer oil feed stock on which the appropriate duty of excise, or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be has already been paid.”

[No. 168/78 F. No. B 6/8/78-TRU]

(839)

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 468 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ट्रांसफार्मर आयल (अतिरिक्त शुल्क) नियम 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण :—

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ, उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले ट्रांसफार्मर आयल पर, जब उसका आयात भारत में किया जाए, उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क, ट्रांसफार्मर आयल बेस स्टॉक या ट्रांसफार्मर आयल फीड स्टॉक के रूप में सामान्यतः प्राप्त करने पदार्थ पर तत्समय उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क के उतने भाग के बराबर होगा, जितना प्रति मीट्रिक टन एक हजार पञ्चपन रूप पञ्चीन पैसे, अर्थात् देशी ट्रांसफार्मर आयल पर सेन्टिग्रेड थर्मामीटर की पन्द्रह डिग्री पर प्रति किलोमीटर भी सी रूप के उत्पाद-शुल्क के समतुल्य है।

[सं० 190/फा० सं० वी० 6/8/78-टी० आर० यू०]

CUSTOMS

G.S.R. 468(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement—

- (1) These rules may be called the Transformer Oil (Additional Duty) Rules, 1978.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Levy of additional duty—

For the purpose of sub-section (3) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the additional duty leviable on Transformer oil falling within Chapter 27 of the First Schedule to the said Act, when imported in India, shall be equal to such portion of the excise duty for the time being leviable on the raw material commonly known as Transformer oil base stock or Transformer oil feed stock as is equivalent to a duty of excise of one thousand and fifty-five rupees and twenty-five paise per metric tonne, that is to say, nine hundred rupees per kilo-litre at fifteen degrees of Centigrade thermometer on indigenous Transformer oil.

[No. 190/ F. No. B6/8/78-TRU]

सीमा-शुल्क

सा० का० नि० 469 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, यह निदेश करती है कि उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले ट्रांसफार्मर आयल पर, जब उसकी भारत में आयात किया जाए, उतना अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहणीय होगा जो ट्रांसफार्मर आयल (अतिरिक्त शुल्क) नियम, 1978 के अनुसार में अवधारित किया जाए।

[सं० 191/फा० सं० वी० 6/8/78-टी० आर० यू०]

आर० के० चन्द्र, अवर सचिव

CUSTOMS

G.S.R. 469(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that Transformer oil falling within Chapter 27 of the First Schedule to the said Act, when imported into India, shall be liable to such additional duty as may be determined in accordance with the Transformer Oil (Additional Duty) Rules, 1978.

[No. 191/ F. No. B6/8/78-TRU]

R. K. CHANDRA, Under Secy.